

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124) नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 1968 । चैत्र 21, 1890
No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 1968/CHAITRA 21, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

TARIFFS

New Delhi, the 10th April 1968

S.O. 1340.—In exercise of the powers conferred by Section 4A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), the Central Government hereby directs that the following amendments be made in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Schedule, for the entry relating to item 26—"Hides, skins and leather, tanned and untanned all sorts, but not including manufactures of leather", as inserted by the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce Tariff No. S.O. 1696, dated the 8th June, 1966, the following shall be substituted, namely:—

"26(i) Hides, skins and leather, tanned and 10 per cent. *ad valorem*
untanned all sorts, but not including
snake skins and manufactures of
leather.

26(ii) Snake skins 25 per cent. *ad valorem*"

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect on and from the 7th February, 1968.

[No. 131/24/66-EP(CAP)]

H. K. KOCHAR, Jt. Secy.

(503)

